

# **भारत का राजपत्र** **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च के 25, 1970/चैत्र 4, 1892

No. 61]

NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 25, 1970/CHAITRA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

### NOTIFICATIONS

#### CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 25th March 1970

**G.S.R. 515.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 105/69-Central Excises, dated the 3rd April, 1969, namely :—

In the said notification:—

- (1) for the letters, figures and words "No. 22/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969", the letters, figures and words "No. 17/70-Central Excises, dated 1st March, 1970" shall be substituted;
- (2) the following further proviso shall be inserted at the end, namely:—  
 "Provided further that a manufacturer shall be permitted to clear for home consumption during the month of March, 1970, prepared or preserved foods, namely:—  
 (i) tomato puree and tomato paste;  
 (ii) mango nectar;  
 (iii) vegetable juice;  
 (iv) ginger cocktail, ginger beer, ginger ale;  
 (v) synthetic syrups and sharbats; and

(vi) ready-to-serve beverages other than those containing ten per cent or more of fruit juice or fruit pulp,

upto a value not exceeding rupees five thousand, subject to the conditions that the value of prepared or preserved foods specified in the Schedule annexed to the notification referred to in the preceding proviso and cleared by or on behalf of such manufacturer from one or more factories for home consumption during the financial year 1969-70 at nil rate of duty does not exceed Rs. 50,000".

[No. 72/70/F.4/No. B. 4/2/70—CX. II]

E. R. SRIKANTIA,  
Dy. Secy.

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1970

सां. कां. नि० 515:—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 105/69-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 3 अप्रैल, 1969 में पत्रद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में:—

(1) 'सं० 22/69—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969' शब्दों और अंकों के स्थान पर "सं० 17/70—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(2) अन्त में निम्नलिखित एक और परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और भी कि विनिर्माता को निम्नलिखित तैयार या परिष्कृत खाद्यों की अर्थात्:—

(i) टमाटर पूरी और टमाटर पेस्ट की ;

(ii) आम्र मकरंद की ;

(iii) सब्जियों के रस की ;

(iv) जिंजर कांकटेल जिंजर बीयर, जिंजर एल की ;

(v) संश्लिष्ट सिरप और शरबत की ; और

(vi) परोसे जाने के लिए तैयार ऐसे पेयों की, जो उन पेयों से भिन्न हों जिन में दस प्रतिशत या उससे अधिक फल-रस या फल-गुवा होता हो ;

गृह उपभोग के लिए मार्च, 1970 के मास में पांच हजार रुपये से अधिक तक के मूल्य की निकासी करने की अनुज्ञा इस शर्त के अध्वधीन रहते हुए दी जाएगी कि पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट तैयार अथवा परिरक्षित बाद्यों का मूल्य जो गृह उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान एक या अधिक कारखानों से ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से शुल्क की शून्य दर पर निकासी किए गए हैं, पचास हजार रुपये से अधिक न हों।

[सं० 72/70/फा० सं० बी० 4/2/70—सी० एक्स II]

ई० आर० श्रीकन्तीया, उप सचिव ।

